



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

2 अक्टूबर 2009



खंड 24

संख्या 40

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां

(करोड़ रुपए)

मद	2008	2009		घट-बढ़	
	26 सितंबर	18 सितंबर	25 सितंबर #	सप्ताह	वर्ष
1	2	3	4	5	6
जारी नोट	6,03,507	7,08,517	7,11,336	2,819	1,07,829
संचलन में नोट	6,03,489	7,08,509	7,11,316	2,807	1,07,827
बैंकिंग विभाग में रखे नोट	18	8	20	12	2
जमा राशियां					
केंद्र सरकार	20,458	30,166	30,875	709	10,417
बाजार स्थिरीकरण योजना	1,73,804	18,773	18,773	—	-1,55,031
राज्य सरकार	41	41	41	—	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	3,18,301	2,08,106	2,25,681	17,575	-92,620
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	4,230	3,112	3,108	-4	-1,122
अन्य बैंक	15,802	10,389	10,501	112	-5,301
अन्य	12,250	22,535	12,333	-10,202	82
अन्य देयताएं	3,61,210	4,27,955	4,17,787	-10,167	56,577
कुल देयताएं / आस्तियां	15,09,605	14,29,594	14,30,436	842	-79,169
विदेशी मुद्रा आस्तियां ⁽¹⁾	13,12,352	12,74,858	12,65,462	-9,396	-46,890
सोने के सिक्के और सोना-चांदी ⁽²⁾	38,064	48,041	48,041	—	9,977
रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1,32,329	75,153	84,793	9,640	-47,536
ऋण और अग्रिम					
केंद्र सरकार	—	—	—	—	—
राज्य सरकारें	7	1,010	227	-783	220
नाबार्ड	—	—	—	—	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	6,094	—	—	—	-6,094
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	22	—	—	—	-22
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
अन्य	567	7,252	9,507	2,255	8,941
खरीदे और भुनाए गए बिल					
वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
खजाना	—	—	—	—	—
निवेश ⁽³⁾	2,750	2,750	2,750	—	—
अन्य आस्तियां	17,420	20,529	19,655	-874	2,235

(1) विदेशी प्रतिभूतियां, विदेशों में रखी गई राशियां और विदेशी शेयरों/बांडों में किए गए निवेश शामिल हैं। इसमें 20 मार्च 2009 से आइएफएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश भी शामिल है।

(2) 17 अक्टूबर 1990 से स्वर्ण का मूल्य निर्धारण अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्यों के आसपास किया जाता है।

(3) इसमें विदेशी शेयरों और बांडों तथा भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	25 सितंबर 2009 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़							
			सप्ताह		मार्च 2009 की समाप्ति पर		दिसंबर 2008 की समाप्ति पर		वर्ष	
	करोड़ रुपए	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ रुपए	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ रुपए	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ रुपए	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ रुपए	मिलि. अम. डॉलर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल भंडार	13,43,894	279,910	-9,548	-860	60,029	27,925	1,03,733	23,942	-8,728	-11,909
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां +	12,64,262	263,498	-9,391	-855*	34,196	22,072	69,472	16,895	-48,090	-19,154
(ख) स्वर्ण	48,041	9,828	—	—	-752	251	6,931	1,343	9,977	1,136
(ग) विशेष आहरण अधिकार @	25,047	5,220	-124	-4	25,041	5,219	25,034	5,217	25,030	5,216
(घ) आइएमएफ में प्रारक्षित अंश की स्थिति**	6,544	1,364	-33	-1	1,544	383	2,296	487	4,355	893

+ : आइएफएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया 1200 करोड़ रुपए / 250 मिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश छोड़कर।

* : अ.डॉ. के रूप में दर्शाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में भंडार में रखी गई अमरीकी मुद्राओं से इतर मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन) में होनेवाली मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन का वर्तमान सांख्यिकी खंड देखें।

** : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) में प्रारक्षित स्थिति अर्थात् प्रारक्षित अंश की स्थिति (आरटीपी) जिसे 23 मई 2003 से 26 मार्च 2004 तक जापान मद के रूप में दिखाया गया है उसे अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहार के अनुसार 2 अप्रैल 2004 को समाप्त सप्ताह से भंडार में शामिल किया गया है।

@ : इसमें सामान्य आवंटन के अन्तर्गत आवंटित 3,082.5 मिलियन एसडीआर (4,883 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समतुल्य) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विशिष्ट आवंटन के अन्तर्गत आवंटित 214.6 मिलियन एसडीआर (340 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समतुल्य) शामिल हैं, जिन्हें क्रमशः 28 अगस्त 2009 और 9 सितंबर 2009 को किया गया।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंक - भारत में कारोबार

(करोड़ रुपए)

मद	11 सितंबर 2009 को बकाया #	निम्नलिखित की तुलना में घटबढ़				
		पखवाड़े में	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2008-2009	2009-2010	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	50,401	-766	-6,173	1,545	3,672	9,795
बैंकों से उधार ⁽¹⁾	21,629	-1,146	1,149	-7,858	4,450	-12,515
अन्य मांग और मीयादी देयताएं ⁽²⁾	12,898	-573	19,270	-8,875	23,236	-24,751
अन्य के प्रति देयताएं						
कुल जमाराशियां	40,89,792	8,123	2,05,603	2,55,682	6,22,447	6,87,250
		(0.2)	(6.4)	(6.7)	(22.4)	(20.2)
मांग	5,25,671	-10,837	-56,741	2,586	72,131	58,103
मीयादी	35,64,120	18,960	2,62,344	2,53,096	5,50,316	6,29,147
उधार ⁽³⁾	1,05,762	-12,329	714	-8,174	20,037	-1,456
अन्य मांग और मीयादी देयताएं	3,32,075	14,054	-6,013	24,555	25,860	39,733
रिजर्व बैंक से उधार	—	—	-1,329	-11,728	2,580	-2,671
रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं जमा शेष	2,48,501	14,642	61,307	-9,974	99,135	-87,972
पास में नकदी	22,294	-1,135	2,302	2,013	4,272	1,948
रिजर्व बैंक के पास जमा शेष	2,26,207	15,776	59,005	-11,988	94,862	-89,920
बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
अन्य बैंकों में जमाशेष ⁽⁴⁾	46,251	47	-1,256	-6,658	6,307	11,491
मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	9,383	-2,683	243	-5,654	6,272	-10,785
बैंकों को अग्रिम	1,813	104	-1,210	-1,090	-363	-756
अन्य आस्तियां	35,592	-1,010	22,045	-16,129	30,197	-17,609
निवेश⁽⁵⁾	13,48,192	-21,269	29,614	1,81,782	91,163	3,46,863
		(-1.6)	(3.0)	(15.6)	(10.0)	(34.6)
सरकारी प्रतिभूतियों में	13,32,172	-21,204	30,187	1,76,387	92,894	3,43,324
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	16,020	-66	-573	5,395	-1,731	3,540
बैंक ऋण	28,25,957	18,374	1,33,644	50,408	5,19,419	3,30,399
		(0.7)	(5.7)	(1.8)	(26.3)	(13.2)
खाद्य ऋण	47,772	-1,340	791	1,561	7,020	2,582
खाद्येतर ऋण	27,78,185	19,714	1,32,853	48,847	5,12,399	3,27,818
ऋण, कैश-क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट	27,25,621	16,580	1,31,582	49,944	4,98,906	3,32,464
देशी बिल - खरीदे गए	11,531	-18	-183	-183	1,079	-880
भुनाए गए ⁽⁶⁾	46,672	910	2,717	3,515	10,029	3,402
विदेशी बिल - खरीदे गए	16,170	628	2,197	-2,352	6,579	-2,526
भुनाए गए	25,963	275	-2,668	-516	2,826	-2,060
नकद-जमा अनुपात	6.08					
निवेश-जमा अनुपात	32.96					
ऋण-जमा अनुपात	69.10					

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंकों से लिए गए उधारों को छोड़कर। (2) जहां बैंकिंग प्रणाली के प्रति किसी देयता को पहचानना संभव नहीं हुआ है वहां इसे 'अन्य के प्रति देयताएं' की तदनुसूची मदों में शामिल कर लिया गया है। (3) भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और एक्जिम बैंक से इतर। (4) चालू खाते तथा अन्य खाते में। (5) इस सारणी में दिए गए निवेश सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रयोजन के लिए हैं और इसमें सारणी 5 में अलग से दिए गए अन्य निवेश शामिल नहीं हैं। (6) इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास पुनःभुनाए गए बिल शामिल नहीं हैं।

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित अवधि में घटबढ़ प्रतिशत दर्शाते हैं।

टिप्पणी : 3 मई 2002 से हुए विलयनों के प्रभाव शामिल हैं।

4. आरक्षित नकदी निधि अनुपात और ब्याज दरें

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

मद / सप्ताहांत	2008	2009					
	19 सितंबर	14 अगस्त	21 अगस्त	28 अगस्त	4 सितंबर	11 सितंबर	18 सितंबर
1	2	3	4	5	6	7	8
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत) ⁽¹⁾	9.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
बैंक दर	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
आइडीबीआई ⁽²⁾	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25
मूल उधार दर ⁽³⁾	13.25-14.00	11.00-12.00	11.00-12.00	11.00-12.00	11.00-12.00	11.00-12.00	11.00-12.00
जमा दर ⁽⁴⁾	8.75-10.00	6.50-7.75	6.50-7.75	6.50-7.75	6.50-7.75	6.50-7.75	6.50-7.75
मांग मुद्रा दर (न्यून/उच्च) ⁽⁵⁾							
- लिये गए उधार	7.00/16.00	1.75-3.45	1.75-3.35	1.00/3.30	1.75/3.30	1.50/3.47	1.75/4.00
- दिये गए उधार	7.00/16.00	1.75-3.45	1.75-3.35	1.00/3.30	1.75/3.30	1.50/3.47	1.75/4.00

(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से संबंधित आरक्षित नकदी निधि अनुपात। (2) न्यूनतम मीयादी उधार दर (एमटीएलआर)। (3) पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित मूल उधार दर। (4) जमा दर प्रमुख बैंकों की एक वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियों से संबंधित। (5) इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

(करोड रुपए)

टिप्पणी : 1. निवेश संबंधी आंकड़े सांविधिक धारा 42 (2) के अंतर्गत प्राप्त विवरणियों पर आधारित हैं।
2. कोषकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

+ : बाजार बंद।
— : पिछले वर्ष के तदनरूपी दिन बाजार बंद।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन
साप्ताहिक सांख्यिकी संप्ररक

7. मुद्रा स्टॉक : घटक और स्रोत

(करोड़ रुपए)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2009		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष - दर - वर्ष			
					2008-2009		2009-2010		2008		2009	
	31 मार्च #	11 सितंबर #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
एम ₃	47,64,019	50,73,538	29,207	0.6	2,21,282	5.5	3,09,519	6.5	7,45,480	21.3	8,34,374	19.7
घटक (i+ii+iii+iv)												
(i) जनता के पास मुद्रा	6,66,364	6,90,162	10,936	1.6	25,170	4.4	23,799	3.6	99,118	20.0	96,582	16.3
(ii) बैंकों के पास मांग जमा	5,81,247	5,83,377	-10,507	-1.8	-59,598	-10.3	2,130	0.4	77,138	17.5	64,603	12.5
(iii) बैंकों के पास मीयादी जमा	35,10,835	37,83,493	19,223	0.5	2,59,807	9.1	2,72,658	7.8	5,69,320	22.3	6,61,641	21.2
(iv) रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	5,573	16,506	9,555	137.5	-4,096	-45.2	10,933	196.2	-96	-1.9	11,548	232.9
स्रोत (i+ii+iii+iv+v)												
(i) सरकार को निवल बैंक ऋण (क+ख)	12,77,199	14,41,037	10,774	0.8	70,983	7.9	1,63,839	12.8	85,458	9.7	4,70,537	48.5
(क) रिजर्व बैंक	61,580	41,861	31,710		41,421		-19,719		-11,370		1,13,648	
(ख) अन्य बैंक	12,15,619	13,99,177	-20,935	-1.5	29,562	2.9	1,83,558	15.1	96,828	10.2	3,56,888	34.2
(ii) वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (क+ख)	30,13,337	30,71,518	18,303	0.6	1,27,615	4.9	58,182	1.9	5,24,924	24.1	3,64,913	13.5
(क) रिजर्व बैंक	13,820	9,726	-450	—	-325	—	-4,094	—	80	—	8,263	—
(ख) अन्य बैंक	29,99,517	30,61,792	18,753	0.6	1,27,941	5.0	62,275	2.1	5,24,844	24.1	3,56,650	13.2
(iii) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां *	13,52,184	14,04,696	11,673	0.8	47,784	3.7	52,512	3.9	3,73,321	38.5	61,781	4.6
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	10,054	10,212	—	—	401	4.3	157	1.6	1,009	11.7	587	6.1
(v) बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुदेतर देयताएं	8,88,754	8,53,925	11,544	1.4	25,501	3.3	-34,829	-3.9	2,39,231	43.4	63,444	8.0
उनमें से : रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	3,87,927	4,21,359	7,189	1.7	94,316	44.9	33,432	8.6	1,70,284	126.8	1,16,822	38.4

* : 20 मार्च 2009 से आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश शामिल है।

टिप्पणी : 31 मार्च 2009 के स्थिति के अनुसार खाते के बंद होने के पश्चात सरकारी बकाये।

8. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(करोड़ रुपए)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2009		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2008-2009		2009-2010		2008		2009	
	31 मार्च #	25 सितंबर #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आरक्षित मुद्रा	9,88,001	9,66,391	10,288	1.1	28,634	3.1	-21,610	-2.2	1,75,729	22.5	9,454	1.0
घटक (i+ii+iii)												
(i) संचलन में करेंसी	6,91,153	7,21,527	2,807	0.4	22,343	3.8	30,374	4.4	1,05,476	20.8	1,08,384	17.7
(ii) रिजर्व बैंक के पास बैंकर की जमा	2,91,275	2,39,290	17,684	8.0	9,887	3.0	-51,984	-17.8	70,375	26.3	-99,043	-29.3
(iii) रिजर्व बैंक के पास “अन्य” जमा	5,573	5,573	-10,202	-64.7	-3,596	-39.7	—	—	-122	-2.2	114	2.1
स्रोत (i+ii+iii+iv+v)												
(i) रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण : उसमें से - केंद्र को	61,580	35,482	8,125		51,347		-26,098		12,564		97,344	
	61,761	35,296	8,908		52,809		-26,465		13,450		97,123	
(ii) बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण - उसमें से: बैंकों को (नाबार्ड सहित)	24,177	10,807	2,255		1,604		-13,370		6,516		2,825	
	10,357	—	—		1,526		-10,357		6,033		-6,116	
(iii) रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां *	12,80,116	13,13,485	-9,396	-0.7	1,14,268	9.2	33,369	2.6	3,67,560	37.4	-36,913	-2.7
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	10,054	10,212	—	—	431	4.7	157	1.6	975	11.2	556	5.8
(v) रिजर्व बैंक की निवल मुद्देतर देयता	3,87,927	4,03,595	-9,304	-2.3	1,39,017	66.1	15,669	4.0	2,11,886	154.3	54,357	15.6

* : 20 मार्च 2009 से आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश शामिल है।

टिप्पणी : 31 मार्च 2009 के स्थिति के अनुसार खाते के बंद होने के पश्चात सरकारी बकाये।

9. चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो की नीलामी

(करोड़ रुपए)

चलनिधि समायोजन सुविधा (तारीख)	रिपो अवधि (दिन)	रिपो (बढ़ाना)					रिवर्स रिपो (घटाना)					चलनिधि में की गई निवल वृद्धि(+)/कमी(-) (6-11)	बकाया राशि @
		प्राप्त बोलियाँ संख्या	प्राप्त बोलियाँ राशि	स्वीकृत बोलियाँ संख्या	स्वीकृत बोलियाँ राशि	कट-ऑफ दर (%)	प्राप्त बोलियाँ संख्या	प्राप्त बोलियाँ राशि	स्वीकृत बोलियाँ संख्या	स्वीकृत बोलियाँ राशि	कट-ऑफ दर (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22 सितंबर 2009	1	—	—	—	—	—	39	91.755	39	91.755	3.25	-91.755	
22 सितंबर 2009 \$\$	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.400
23 सितंबर 2009	1	—	—	—	—	—	47	1,00,610	47	1,00,610	3.25	-1,00,610	1,00,255
24 सितंबर 2009	1	—	—	—	—	—	35	71,520	35	71,520	3.25	-71,520	71,165
25 सितंबर 2009	4	—	—	—	—	—	35	61,035	35	61,035	3.25	-61,035	
25 सितंबर 2009 \$	4	—	—	—	—	—	47	45,320	47	45,320	3.25	-45,320	1,06,115

@ : रिपो को घटकर। \$: द्वितीय एलएएफ। \$\$: एलएएफ के तहत विशेष स्थिर दर रिपो।

‘—’ : नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

टिप्पणी : 8 मई 2009 से दूसरा एलएएफ रिपोर्टिंग शुक्रवार को आयोजित किया जा रहा है।

10. भारत सरकार खजाना बिलों की नीलामी

(करोड़ रुपए)

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियां			भा.रि. बैंक पर भार	कुल निर्गम (8+9+10)	भारित औसत मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)	निर्गम की तारीख को बकाया राशि (अंकित मूल्य)
			सं.	कुल अंकित मूल्य		सं.	कुल अंकित मूल्य						
				प्रतियोगी	अप्रतियोगी		प्रतियोगी	अप्रतियोगी					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91-दिवसीय खजाना बिल													
2008-2009 7 जनवरी	9 जनवरी	8,000	194	23,149	—	21	8,000	—	—	8,000	98.87	4.7074	71.846
2009-2010 2 अप्रैल	6 अप्रैल	500	51	1,974	5,000	17	500	5,000	—	5,500	98.90	4.5022	80,549
1 जुलाई	3 जुलाई	2,000	44	12,557	—	1	2,000	—	—	2,000	99.23	3.1124	82,000
23 सितंबर	25 सितंबर	5,000	55	14,990	—	22	5,000	—	—	5,000	99.16	3.3978	76,500
182-दिवसीय खजाना बिल													
2008-2009 7 जनवरी	9 जनवरी	1,500	90	5,331	—	6	1,500	—	—	1,500	97.76	4.6372	22,175
2009-2010 2 अप्रैल	6 अप्रैल	500	35	1,510	375	11	500	375	—	875	97.72	4.7002	20,375
8 जुलाई	10 जुलाई	1,500	52	4,717	—	5	1,500	—	—	1,500	98.32	3.4195	20,375
16 सितंबर	18 सितंबर	3,000	77	13,615	—	21	3,000	—	—	3,000	98.04	4.0302	20,375
364-दिवसीय खजाना बिल													
2008-2009 14 जनवरी	16 जनवरी	1,000	69	4,235	—	19	1,000	—	—	1,000	95.74	4.5056	49,930
2009-2010 8 अप्रैल	9 अप्रैल	1,000	76	5,875	—	4	1,000	—	—	1,000	95.82	4.3962	53,550
1 जुलाई	3 जुलाई	1,000	56	3,650	—	8	1,000	—	—	1,000	96.36	3.8095	46,491
23 सितंबर	25 सितंबर	1,000	55	5,000	33	3	1,000	33	—	1,033	95.87	4.3307	42,013

टिप्पणी : 1. 91 दिवसीय खजाना बिलों हेतु 6 नवम्बर 1998 को एकसमान मूल्य नीलामी का प्रारंभ हुआ। नीलामी का फार्मेट 11 दिसम्बर 2002 से बहु मूल्य नीलामी में परिवर्तित किया गया है।

2. 2 जून 1999 से प्रभावी 364 दिवसीय खजाना बिलों के मामले में नीलामी में अप्रतियोगिता बोलियों को अनुमति दी गई है।

3. कट-ऑफ कीमत पर निहित लाभ को वास्तविक /364 दिवस के आधार पर गिनती करने की प्रथा को 27 अक्टूबर 2004 को नीलामी से वास्तविक /365 दिवस की गिनती की प्रथा में परिवर्तित कर दिया गया है।

11. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास संचयी नकद जमा शेष

(करोड़ रुपए)

को समाप्त पखवाड़ा	दिनांक													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11 सितंबर 2009	29 अगस्त	30 अगस्त	31 अगस्त	1 सितंबर	2 सितंबर	3 सितंबर	4 सितंबर	5 सितंबर	6 सितंबर	7 सितंबर	8 सितंबर	9 सितंबर	10 सितंबर	11 सितंबर
	2,11,429	4,22,859	6,60,554	8,78,034	11,03,218	13,18,634	15,29,243	17,38,478	19,47,713	21,60,646	23,71,110	26,06,980	28,34,549	30,62,061
25 सितंबर 2009	12 सितंबर	13 सितंबर	14 सितंबर	15 सितंबर	16 सितंबर	17 सितंबर	18 सितंबर	19 सितंबर	20 सितंबर	21 सितंबर	22 सितंबर	23 सितंबर	24 सितंबर	25 सितंबर
	2,29,838	4,59,677	6,95,864	9,18,203	11,27,015	13,54,646	15,64,124	17,77,116	19,90,110	22,03,007	24,23,153	26,30,764	28,72,734	30,99,307

टिप्पणी : ये आंकड़े पखवाड़े के दौरान भा.रि. बैंक के पास संचयी आधार पर रखी गई अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल नकद जमा शेष के हैं।

12. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण-पत्र

(करोड़ रुपए)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि #	पखवाड़े के दौरान जारी #	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
10 अक्टूबर 2008	1,74,975	12,016	8.92 — 21.00
2 जनवरी 2009	1,52,901	12,847	7.00 — 11.50
10 अप्रैल 2009	1,98,497	12,125	5.90 — 11.50
3 जुलाई 2009	2,28,638	13,913	3.34 — 8.25
17 जुलाई 2009	2,35,715	13,445	3.34 — 8.00
31 जुलाई 2009	2,40,395	9,668	3.55 — 8.00

@ : प्रभावी वार्षिक ब्याज दर सीमा प्रतिवर्ष।

13. कंपनियों द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र (अंकित मूल्य पर)

(करोड़ रुपए)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि	पखवाड़े के दौरान सूचित	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
15 अक्टूबर 2008	49.359	3.039	11.90 — 17.75
15 जनवरी 2009	40.803	10.682	7.75 — 14.00
15 अप्रैल 2009	46.551	2.918	6.00 — 12.50
15 जुलाई 2009	77.560	12.334	3.04 — 8.85
15 अगस्त 2009	77.352	4.070	3.43 — 9.20
31 अगस्त 2009	83.026	11.445	3.05 — 9.35

@ : पखवाड़े के दौरान निर्गमों पर लागू प्रतिरूपी प्रभावी वार्षिक बड़ा दर का परास।

14. थोक मूल्यों के सूचकांक (आधार : 1993-94=100)

मद / समाप्त सप्ताह	भार	2008	2009		निम्नलिखित पर प्रतिशत उतार चढ़ाव			
		13 सितंबर	18 जुलाई *	12 सितंबर #	सप्ताह	महीना	मार्च के अंत में	वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सभी पण्य	100.00	241.7	239.2	242.6	0.2	1.6	6.1	0.4
प्राथमिक वस्तुएं	22.02	251.9	269.7	275.3	0.2	2.6	10.6	9.3
(i) फल और सब्जियां	2.92	274.3	297.0	342.8	-1.2	11.2	41.4	25.0
ईंधन, विद्युत, प्रकाश और लुब्रिकैंट	14.23	375.3	338.0	343.5	—	1.6	7.0	-8.5
विनिर्मित उत्पाद	63.75	208.3	206.6	208.8	0.3	1.2	3.9	0.2
(i) चीनी, खांडसारी और गुड़	3.93	168.9	212.1	239.8	1.0	9.2	27.1	42.0
(ii) खाद्य तेल	2.76	192.6	176.5	178.1	-0.3	0.6	-1.8	-7.5
(iii) सीमेंट	1.73	225.3	230.9	228.1	—	-1.1	0.9	1.2
(iv) लोहा और इस्पात	3.64	360.3	286.6	296.4	3.7	3.6	3.0	-17.7

* : उपलब्ध अद्यतन अंतिम आंकड़े।

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

15. साधारण शेयर मूल्यों का बीएसई संवेदी सूचकांक तथा एनएसई निफ्टी सूचकांक - मुंबई

	2008	2009				
	25 सितंबर	21 सितंबर +	22 सितंबर	23 सितंबर	24 सितंबर	25 सितंबर
1	2	3	4	5	6	7
बीएसई संवेदी सूचकांक (1978-79=100)	13547.18		16886.43	16719.50	16781.43	16693.00
एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी (3.11.1995=1000)	4110.55		5020.20	4969.95	4986.55	4958.95

+ : बाजार बंद।

16. मांग मुद्रा बाजार में औसत दैनिक पण्यवर्त *

(करोड़ रुपए)

	समाप्त सप्ताह						
	14 अगस्त 2009	21 अगस्त 2009	28 अगस्त 2009	4 सितंबर 2009	11 सितंबर 2009	18 सितंबर 2009	25 सितंबर 2009
1	2	3	4	5	6	7	8
1. बैंक							
क) लिए गए उधार	6.129	10.198	7.139	7.845	5.874	10.669	5.434
ख) दिए गए ऋण	7.041	11.773	8.221	8.911	6.800	11.452	6.181
2. प्राथमिक व्यापारी							
क) लिए गए उधार	920	1,583	1,085	1,129	926	785	746
ख) दिए गए ऋण	8	9	3	64	—	2	—
3. कुल							
क) लिए गए उधार	7,050	11,781	8,224	8,974	6,800	11,454	6,181
ख) दिए गए ऋण	7,050	11,781	8,224	8,974	6,800	11,454	6,181

टिप्पणी : 1. ये आंकड़े सप्ताह भर की दैनिक मांग मुद्रा पण्यवर्त का औसत हैं (शनिवार से शुक्रवार)।

* : इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

2. 6 अगस्त 2005 से बैंक और प्राथमिक व्यापारी पात्र सहभागी हैं।

17. सरकारी प्रतिभूति बाजार में पण्यवर्त (अंकित मूल्य) @

(करोड़ रुपए)

मद	समाप्त सप्ताह					
	21 अगस्त 2009	28 अगस्त 2009	4 सितंबर 2009	11 सितंबर 2009	18 सितंबर 2009	25 सितंबर 2009
1	2	3	4	5	6	7
I. तत्काल (आउटराइट) लेनदेन						
क) भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	56,465	1,00,425	86,236	1,03,496	1,81,781	1,27,296
ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	863	4,107	439	3,753	3,677	2,620
ग) 91 - दिवसीय खजाना बिल	6,300	4,293	4,592	6,128	13,684	13,445
घ) 182 - दिवसीय खजाना बिल	1,850	476	1,363	1,963	908	1,990
ङ) 364 - दिवसीय खजाना बिल	905	2,225	2,183	3,336	1,034	3,069
II. भारतीय रिजर्व बैंक *	6,445	3,263	3,575	4,497	4,725	1,972

@ : रिपो लेनदेन को छोड़कर।

* : भा.रि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

18. विदेशी मुद्रा बाजार में पण्यवर्त (टर्नओवर)

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

स्थिति की तारीख	वणिज्य						अंतर बैंक					
	एफ सी वाई / आइ एन आर			एफ सी वाई / एफ सी वाई			एफ सी वाई / आइ एन आर			एफ सी वाई / एफ सी वाई		
	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	अदला बदली	वायदा	हाजिर	अदला बदली	वायदा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
खरीद												
7 सितंबर 2009	1,327	501	165	205	435	500	2,878	1,645	82	2,331	501	61
8 सितंबर 2009	1,679	1,401	465	327	666	624	5,949	4,848	163	4,085	1,640	57
9 सितंबर 2009	2,470	707	436	288	622	392	5,010	4,966	323	4,459	1,736	114
10 सितंबर 2009	2,171	835	497	142	459	463	5,306	4,078	385	3,324	1,337	99
11 सितंबर 2009	1,700	816	362	150	579	486	5,213	3,495	695	4,204	1,603	122
बिक्री												
7 सितंबर 2009	889	868	284	200	433	503	2,751	1,303	102	2,355	506	60
8 सितंबर 2009	2,002	1,242	806	318	668	619	5,621	4,636	190	4,154	1,702	57
9 सितंबर 2009	1,679	1,216	492	278	733	437	4,753	5,108	305	4,343	1,798	158
10 सितंबर 2009	1,910	1,395	443	137	474	474	4,924	3,652	579	3,340	1,474	89
11 सितंबर 2009	1,727	1,044	394	157	600	470	4,927	3,651	867	4,196	1,673	119

एफ सी वाई = विदेशी मुद्रा ।

आइ एन आर = भारतीय रुपया ।

टिप्पणी : ये आंकड़े वणिज्य और अंतर बैंक लेन-देन के कारण विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री से संबंधित हैं।

19. राष्ट्रीय शेयर बाजार में हुए कंपनी ऋण कारोबार की साप्ताहिक मात्रा

(करोड़ रुपए)

	समाप्त सप्ताह					
	21 अगस्त 2009	28 अगस्त 2009	4 सितंबर 2009	11 सितंबर 2009	18 सितंबर 2009	25 सितंबर 2009
1	2	3	4	5	6	7
राशि	541.45	1900.09	2103.77	1085.68	1139.74	480.74

स्रोत : भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लि.

20. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल (अंकित मूल्य)

(करोड़ रुपए)

धारक	25 सितंबर 2009					कुल खजाना बिलों में घट-बढ़	
	अलग-अलग परिपक्वता वाले खजाना बिल				कुल (2+3+4+5)	सप्ताह में	मार्च के अंत में
	14 दिवसीय (मध्यवर्ती)	91 दिवसीय (नीलामी)	182 दिवसीय (नीलामी)	364 दिवसीय (नीलामी)			
1	2	3	4	5	6	7	8
भारतीय रिजर्व बैंक	—	—	—	—	—	—	—
बैंक	—	37,133	8,523	20,034	65,690	4,638	-15,113
राज्य सरकारें	76,141	—	375	750	77,266	6,344	-24,704
अन्य	1,937	39,367	11,477	21,228	74,010	-4,880	7,769

21. भारत सरकार : दीर्घावधि और मध्यावधि उधार - 2009-2010

(अंकित मूल्य करोड़ रुपए में)

	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2009-2010 (25 सितंबर 2009 तक)	2008-2009 (26 सितंबर 2008 तक)	2008-2009	2009-2010 (25 सितंबर 2009 तक)	2008-2009 (26 सितंबर 2008 तक)	2008-2009
1	2	3	4	5	6	7
1. कुल	3,11,000 \$	96,000	2,73,000 @	2,77,911 \$	51,972	2,28,972 @
2. भारिबैंक/खुला बाजार परिचालन * बिक्री खरीद	4,976 78,568	7,360 26,591	9,932 1,04,480			

\$: इस में एमएसएस डीसिक्वेस्टेरिंग के 28,000 करोड़ रुपए शामिल है।

@ : इस में एमएसएस डीसिक्वेस्टेरिंग के 12,000 करोड़ रुपए शामिल है।

* : भारिबैंक के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल है।

22. द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार (अंकित मूल्य)[@]

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	18 सितंबर 2009 को समाप्त सप्ताह			25 सितंबर 2009 को समाप्त सप्ताह		
	राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) संकेतिक **		राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) संकेतिक **	
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3	4	5	6	7
I. तत्काल (आउटराइट) लेन देन						
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां						
परिपक्वता वर्ष						
2009-10	1.720	3.7169	3.9157	1.780	3.7182	3.7396
2010-11	2.760	4.3070	6.0433	3.945	4.3450	5.7342
2011-12	2.316	5.9262	6.9100	3.650	5.8399	6.0113
2012-13	4.762	6.5500	6.8474	3.914	6.4440	6.9462
2013-14	730	6.7434	7.2209	795	6.7848	7.2000
2014-15	1.663	6.8291	7.3380	322	6.9226	7.2700
2015-18	25.691	6.9161	8.1974	17.790	6.9801	7.6210
2018-19	16	7.3964	7.8924	45	7.2375	7.5928
2019 से आगे	51.234	7.0143	8.2789	31.407	6.9592	8.2500
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	1.838	7.2548	8.2703	1.310	7.2344	8.3422
3. खजाना बिल (शेष परिपक्वता अवधि दिनों में)						
क) 14 दिन तक	216	2.6478	3.3951	2.635	3.0000	3.5009
ख) 15 - 91 दिन	6.961	2.6493	3.4000	4.283	2.6493	3.4000
ग) 92 - 182 दिन	526	3.8199	4.0302	1.650	3.6500	3.9886
घ) 183 - 364 दिन	110	4.2500	4.4600	684	3.9000	4.3025
II. भा.रि.बैं.* : बिक्री	—			3		
: खरीद	4,725			1,969 +		
III. रिपो लेन देन ✕ (भा. रि. बैं. से इतर)						
	राशि	दरें (% वार्षिक) न्यूनतम	दरें (% वार्षिक) अधिकतम	राशि	दरें (% वार्षिक) न्यूनतम	दरें (% वार्षिक) अधिकतम
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	1,64,295	1.00 (1)	5.00 (9)	1,26,612	1.00 (1)	3.50 (6)
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	626	2.40 (1)	3.00 (4)	426	2.40 (1)	3.20 (4)
3. 91 - दिवसीय खजाना बिल	2,605	2.00 (1)	3.20 (4)	1,304	2.95 (1)	3.50 (6)
4. 182 - दिवसीय खजाना बिल	126	2.65 (1)	2.75 (1)	401	2.90 (1)	2.95 (4)
5. 364 - दिवसीय खजाना बिल	8,651	2.65 (1)	3.00 (1)	11,558	2.95 (1)	3.50 (6)
IV. भा.रि.बैं. : रिपो ✕ ^	—	—	—	—	—	—
: रिवर्स रिपो !	5,81,395	—	3.25	3,70,240	—	3.25

@ : भा.रि.बैं. के एसजीएल खातों में दर्ज सूचना में 'वेन इश्यूड' लेन देन शामिल है।

* : भा.रि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेन देन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेन देन शामिल हैं।

** : न्यूनतम और अधिकतम संकेतिक परिपक्वता-आय अनुपात (% वार्षिक) गैर मानक समूह (5 करोड़ रुपये से कम) के कारोबार को छोड़कर दर्शाया गया है।

✕ : कारोबार का पहला चरण (फस्ट लेग) दर्शाता है।

^ : दिनांक 5 जून 2000 से प्रभावी चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो नीलामी से संबंधित आंकड़े (देखें सारणी 9)।

! : चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रिपो नीलामी शामिल है।

+ : इसमें विशेष बाजार परिचालन के अंतर्गत के तेल मार्केटिंग कंपनियों की शून्य राशी (अंकित मूल्य) के भारत सरकार के विशेष बांड (तेल बांड) का क्रय शामिल है।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े रिपो अवधि दर्शाते हैं।

आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण हो सकता है घटक मदों का जोड़ कुल जोड़ से मेल न खाए।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक में प्रयुक्त प्रतीक .. = अनुपलब्ध - = शून्य / नगण्य # = अनंतिम

उपयुक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.bai.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक का एक वर्ष और तीन वर्ष के लिए शुल्क (डाक व्यय सहित) भारत में क्रमशः 550 रुपये और 1,500 रुपये तथा विदेश में क्रमशः 34 अमरीकी डॉलर और 85 अमरीकी डॉलर है।

श्रीमती गुणजीत कौर द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 के लिए स्वरूपबद्ध, प्रकाशित और उनके द्वारा ऑनलुकर प्रेस, 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 टेलि.: 2218 3544 फ़ैक्स : (91-22) 2218 8702 में मुद्रित।